

30.06.2025 के अनुसार बैलेंस शीट

(राशि रुपये करोड़ में)

|  | विवरण                                                                | अनुसूची संदर्भ<br>प्रपत्र संख्या | 30 जून, 2025 तक | 30 जून, 2024 तक |
|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | निधियों का स्रोत                                                     |                                  |                 |                 |
|  | शेयर होल्डरों की निधि:                                               |                                  |                 |                 |
|  | शेयर पूंजी                                                           | एल-8, एल-9                       | 6,325.00        | 6,325.00        |
|  | लंबित आवंटन शेयर आवेदन धनराशि                                        |                                  |                 |                 |
|  | रिजर्व और अधिशेष                                                     | 10 ए                             | 1,31,082.27     | 86,201.13       |
|  | क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य परिवर्तन खाता                             |                                  | 916.63          | 36.08           |
|  | उप-कुल                                                               |                                  | 1,38,323.90     | 92,562.21       |
|  | उधारी                                                                | एल 11                            | -               | -               |
|  | पॉलिसीधारकों की निधि:                                                |                                  |                 |                 |
|  | क्रेडिट/[डेबिट] उचित मूल्य परिवर्तन खाता                             |                                  | 7,54,439.72     | 8,05,597.10     |
|  | हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व                                                |                                  | (163.99)        | -               |
|  | पॉलिसी देनदारियाँ                                                    |                                  | 48,31,327.29    | 44,95,054.54    |
|  | बंद पॉलिसियों के लिए निधि:                                           |                                  |                 |                 |
|  | (i) प्रीमियम का भुगतान नहीं किये जाने के कारण बंद किए गए             |                                  | 968.62          | 484.04          |
|  | (ii) अन्य                                                            |                                  | 13.98           | 14.11           |
|  | बीमा रिसर्व                                                          | एल 10 बी                         | 15,955.56       | 15,684.48       |
|  | संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान                                       |                                  | 52,766.00       | 38,207.86       |
|  | उप-कुल                                                               |                                  | 56,55,307.18    | 53,55,042.13    |
|  | भविष्य के विनियोगों के लिए निधि                                      |                                  |                 |                 |
|  | संबद्ध                                                               |                                  | 55.05           | 30.01           |
|  | असंबद्ध (असहभागी)                                                    |                                  | -               | -               |
|  | असंबद्ध (सहभागी)                                                     |                                  | 1,917.58        | 1,292.21        |
|  | आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)                                           |                                  | -               | -               |
|  | कुल                                                                  |                                  | 57,95,603.71    | 54,48,926.56    |
|  | निधियों का आवेदन                                                     |                                  |                 |                 |
|  | निवेश                                                                |                                  |                 |                 |
|  | शेयरधारकों'                                                          | एल 12                            | 1,23,558.50     | 70,286.13       |
|  | पॉलिसीधारकों'                                                        | एल-13                            | 53,54,407.93    | 50,79,688.70    |
|  | संबद्ध देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियाँ               | एल 14                            | 53,722.73       | 38,680.04       |
|  | ऋण                                                                   | एल 15                            | 1,29,228.43     | 1,22,288.22     |
|  | अचल संपत्तियाँ                                                       | एल-16                            | 4,398.49        | 4,094.83        |
|  | आस्थगित कर संपत्तियाँ(शुद्ध)                                         |                                  | -               | -               |
|  | चालू संपत्ति                                                         |                                  |                 |                 |
|  | नकद और बैंक शेष                                                      | एल-17                            | 41,067.39       | 40,177.58       |
|  | अग्रिम और अन्य संपत्ति                                               | एल 18                            | 1,38,681.42     | 1,51,758.68     |
|  | उप-कुल (A)                                                           |                                  | 1,79,748.81     | 1,91,936.26     |
|  | चालू देनदारियाँ                                                      | एल-19                            | 34,518.12       | 43,104.56       |
|  | प्रावधान                                                             | एल 20                            | 14,943.06       | 14,943.06       |
|  | उप-कुल (B)                                                           |                                  | 49,461.18       | 58,047.62       |
|  | शुद्ध चालू संपत्ति (C) = (A - B)                                     |                                  | 1,30,287.63     | 1,33,888.64     |
|  | विविध व्यय ( बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किये गये सीमा तक ) | एल-21                            | -               | -               |
|  | लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष (शेयरधारकों का खाता)                  |                                  | -               | -               |
|  | राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता)                          |                                  | -               | -               |
|  | कुल                                                                  |                                  | 57,95,603.71    | 54,48,926.56    |

## आकस्मिक देयताएं

(राशि रुपये करोड़ में )

|   | विवरण                                                                                             | 30 जून, 2025 तक  | 30 जून, 2024 तक  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | आंशिक रूप से चुकता निवेश                                                                          | 727.85           | 604.96           |
| 2 | दावों, पॉलिसियों के विरुद्ध के अलावा, जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हो | 737.02           | 1,056.56         |
| 3 | बकाया बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)                                | NIL              | NIL              |
| 4 | कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी                                                           | 6.07             | 0.08             |
| 5 | विवाद में वैधानिक मांगें/देनदारियां, जिसके लिए प्रावधान नहीं है                                   | 21,407.34        | 14,472.23        |
| 6 | खातों में प्रावधान नहीं की गई सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व                                           | NIL              | NIL              |
| 7 | अन्य:                                                                                             |                  |                  |
|   | अभियोग के अंतर्गत पॉलिसी संबन्धित दावे                                                            | 593.03           | 1,330.99         |
|   | <b>कुल</b>                                                                                        | <b>23,471.31</b> | <b>17,464.82</b> |

गत वर्ष के आकड़ों को वर्तमान वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।